

August 21, 2024

To,
BSE Limited
P J Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400 001

Sub.: Buyback of equity shares by Dhanuka Agritech Limited through Tender Offer under SEBI (Buyback of Securities) Regulations, 2018 (the "SEBI Buyback Regulations")

Dear Sir / Madam,

This is with reference to the captioned subject the Board of Directors of Dhanuka Agritech Limited, published an offer opening advertisement in respect of opening of buy back on August 22, 2024, in the same newspapers in which Public Announcement was published, that is the following newspapers:

Name of publication	Language	Edition
Financial Express	English	All editions
Jansatta	Hindi	All editions

Thanking you,

Yours sincerely,
for Sundae Capital Advisors Private Limited

ANCHAL Digitally signed by
ANCHAL LOHIA
LOHIA Date: 2024.08.21
15:21:46 +05'30'

Anchal Lohia
Asst. Vice President

Encl.: As above



DHANUKA AGRITECH LIMITED

Corporate Identification Number: L24219HR1985PLC122802

Registered Office & Correspondence Address: Global Gateway Towers, MG Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram - 122 002, Haryana, India | Tel: +91 124 434 5000 | Website: www.dhanuka.com | Email: investors@dhanuka.com
Contact Person: Jitin Sadana, Company Secretary and Compliance Officer

BUYBACK OF UPTO 5,00,000 (FIVE LAKH) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF ₹ 2/- (RUPEES TWO) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 1.10% OF THE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2024 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON AUGUST 16, 2024 ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 2,000 (RUPEES TWO THOUSAND ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UPTO ₹ 100 CRORES (RUPEES ONE HUNDRED CRORES ONLY) ("BUYBACK SIZE").

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

- the public announcement in connection with the Buyback published on August 06, 2024 in the following newspapers: i) Financial Express (English - all editions) and ii) Jansatta (Hindi - all editions) ("**Public Announcement**");
- the letter of offer dated August 20, 2024 in connection with the Buyback ("**Letter of Offer**").

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer, Tender form (the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement) along with SH-4 Form to all the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Friday, August 16, 2024 has been completed by August 20, 2024 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Depositories / Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

The Buyback Entitlement ratio for the shareholders is as below:

Category of Shareholders	Ratio of Buyback
Reserved category for Small Shareholders	3 Equity Shares for every 28 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	5 Equity Shares for every 528 Equity Shares held on the Record Date

For details, refer to "**Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category**" on page 28 of the Letter of Offer.

Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("**Tendering Period**") for this Buy-Back:

- In case the Shares are held in Dematerialised Form: Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.23 on page 34 of the Letter of Offer.
- In case the Shares are held in Physical Form: Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.24 on page 35 of the Letter of Offer.
- In case of non-receipt of the Letter of Offer: The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.27 on page 39 of the Letter of Offer.

The Letter of Offer and Tender Form (the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement) is available on the website of the Company (www.dhanuka.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (www.bigshareonline.com), the Manager to the Buyback (www.sundaecapital.com) and Stock Exchanges, BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, if they so desire, may download the Letter of Offer and Tender Form (the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement) from the websites indicated above.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS CAN ALSO CHECK THEIR ENTITLEMENT ON THE WEBSITE OF THE REGISTRAR TO THE BUYBACK BY FOLLOWING THE STEPS GIVEN BELOW.

- Click on <https://www.bigshareonline.com/BuyBack.aspx>
- Select the name of the Company – Dhanuka Agritech Limited
- Select holding type – "Physical" or "NSDL" or "CDSL" or "PAN".
- Based on the option selected above, enter your "Folio Number" or "NSDL DPID/Client ID" or "CDSL Client ID" or "PAN".
- Enter the security code and click on submit.
- Click on 'View' button
- The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'

Eligible Shareholders have to ensure that their bid is entered by their respective Seller Member in the electronic platform to be made available by NSE before the Buyback Closing Date.

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Opening of the Buyback	August 22, 2024	Thursday
Date of Closing of the Buyback	August 28, 2024	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback	August 28, 2024	Wednesday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchange	September 04, 2024	Wednesday

Further, under Clause 10.15 and 10.16 of the Public Announcement, with regard to the delivery of original Equity Share certificate(s), Tender Form, Transaction Registration Slip (TRS) or any other documents, as the case may be, to the Registrar to the Buyback, shall be read as below:

"Eligible Shareholders who cannot hand deliver the Tender Form and other documents at the Office of Registrar to the Buyback, may send the same by registered post/ speed post/ courier, at their own risk, superscribing the envelope as "**Dhanuka Agritech Limited - Buyback 2024-25**", to the Registrar to the Buyback on or before the Buyback Closing Date."

Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tender Offer and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

For and on behalf of the Board of Directors of

Dhanuka Agritech Limited

Sd/-
Mahendra Kumar Dhanuka
Chairman
(DIN: 00628039)

Sd/-
Rahul Dhanuka
Managing Director
(DIN: 00150140)

Sd/-
Jitin Sadana
Company Secretary and Compliance Officer
(FCS-7612)

Place: Gurugram
Date: August 20, 2024

AUROBINDO PHARMA LIMITED
 Corporate Identification Number (CIN): L24239TG1986PLC015190
 Registered Office: Plot No. 2, Maithrivi, Ameerpet, Hyderabad- 500 038, Telangana, India
 Corporate Office: Galaxy, Floors: 22-24, Plot No.1, Survey No.83/1, Hyderabad Knowledge City, Raidurg Panmakha, Ranga Reddy District, Hyderabad - 500 032, Telangana, India
 Contact Person: Mr B Adi Reddy, Company Secretary and Compliance Officer
 Tel. No.: +91 40 2373 6370/ 2374 7340; Fax: +91 40 2374 1080/ 2374 6833
 Website: www.aurobindo.com; Email: info@aurobindo.com

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF AUROBINDO PHARMA LIMITED

This post buyback public advertisement ("Post Buyback Public Advertisement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated Friday, July 19, 2024 published on Monday, July 22, 2024 ("Public Announcement") and the Letter of Offer dated Thursday, August 01, 2024 ("Letter of Offer") issued in connection with the Buyback.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1 Aurobindo Pharma Limited ("Company") had announced the Buyback of up to 51,36,986 (Fifty One Lakh Thirty Six Thousand Nine Hundred and Eighty Six only) fully paid-up equity shares, each having a face value of ₹ 1/- (Rupee One only) ("Equity Shares"), representing 0.88% of the total number of Equity Shares in the paid-up equity share capital of the Company, at a price of ₹ 1,460/- (Rupees One Thousand Four Hundred and Sixty only) per Equity Share ("Buyback Price"), payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 750,00,00,000/- (Rupees Seven Hundred and Fifty Crore only) ("Buyback Size") from all of the Equity Shareholders/ Beneficial Owners, including members of the Promoter & Promoter Group, who hold Equity Shares as of the Record Date i.e., Tuesday, July 30, 2024, on a proportionate basis through the "Tender Offer" route as prescribed under the Buyback Regulations, Companies Act, rules framed thereunder including the Share Capital Rules and Management Rules, to the extent applicable, and the Listing Regulations ("Buyback"). The Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback viz. brokerage costs, fees, turnover charges, applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc., expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to the SEBI, advisors/ legal fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses, etc. ("Transaction Costs"). The Buyback Size constitutes 3.84% and 2.67% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves of the Company as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2024, respectively (i.e., the last audited financial statements available as on the date of Board Meeting recommending the proposal of the Buyback).

1.2 The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide SEBI circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and SEBI circular CFD/DCR/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, and such other circulars or notifications, as may be applicable, including any amendments or statutory modifications for the time being in force.

1.3 The tendering period for the Buyback opened on Monday, August 05, 2024, and closed on Friday, August 09, 2024.

2. DETAILS OF THE BUYBACK

- 2.1 The total number of shares bought back by the Company under the Buyback were 51,36,986 (Fifty One Lakh Thirty Six Thousand Nine Hundred and Eighty Six only) Equity Shares, at a price of ₹ 1,460/- (Rupees One Thousand Four Hundred and Sixty only) per Equity Share.
- 2.2 The total amount utilized in the Buyback is ₹ 749,99,99,560/- (Rupees Seven Hundred and Forty Nine Crore Ninety Nine Lakh Ninety Nine Thousand Five Hundred and Sixty only) excluding Transaction Costs.
- 2.3 The Registrar to the Buyback i.e., KFin Technologies Limited ("Registrar"), considered 9,569 valid bids for 2,10,18,508 Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the subscription of approximately 4.09 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back.
- 2.4 The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	Number of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of valid bids received in the category	Total no. of Equity Shares validly tendered	Response (%)
Reserved Category for Small Shareholder	7,70,548	8,670	1,58,144	20.52%
General Category for other Eligible Shareholders	43,66,438	899	2,08,60,364	477.74%
Total	51,36,986	9,569	2,10,18,508	409.16%

2.5 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar via email to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company or the Depositories) on Monday, August 19, 2024. In cases where email IDs were not registered with the Company or Depositories, physical letters of acceptance/ rejection were dispatched to the Eligible Shareholders on Monday, August 19, 2024 by the Registrar.

2.6 The settlement of all valid bids was completed by the Clearing Corporation on Monday, August 19, 2024. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by RBI or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders were transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders.

2.7 Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account on Monday, August 19, 2024. The unaccepted Equity Shares in dematerialized form have been returned to the respective Eligible Shareholders/lien removed by the Clearing Corporations on Monday, August 19, 2024. No Equity Shares were tendered in physical form.

2.8 The extinguishment of 51,36,986 Equity Shares accepted under the Buyback, all of which are in dematerialized form, is currently under process and shall be completed in accordance with the Buyback Regulations, on or before Wednesday, August 28, 2024.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1 The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

SR. NO.	PARTICULARS	AMOUNT (IN ₹)
A	AUTHORISED SHARE CAPITAL	
	4,54,29,93,820 Equity shares of ₹ 1/- each	4,54,29,93,820
	2,12,10,000 preference shares of ₹ 100/- each	2,12,10,00,000
	Total	6,66,39,93,820
B	ISSUED, SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP SHARE CAPITAL PRE BUYBACK	
	58,59,38,609 Equity Shares of ₹ 1/- each	58,59,38,609
C	ISSUED, SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP SHARE CAPITAL POST BUYBACK*	
	58,08,01,623 Equity Shares of ₹ 1/- each	58,08,01,623

*Subject to extinguishment of 51,36,986 (Fifty One Lakh Thirty Six Thousand Nine Hundred and Eighty Six only) Equity Shares accepted in the Buyback.

3.2 Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buyback are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of the total post Buyback Equity Share capital of the Company*
1	RPR SONS ADVISORS PVT LTD	18,14,893	35.33	0.31
2	MIRAE ASSET FUND THROUGH MULTIPLE SCHEMES	4,62,477	9.00	0.08
3	GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL	4,16,321	8.10	0.07
4	KIRTHI REDDY KAMBAM	1,87,148	3.64	0.03
5	VENKATA RAMPRASAD REDDY PENAKA	1,66,354	3.24	0.03
6	AXIS CLINICALS LIMITED	1,54,585	3.01	0.03
7	M SIVAKUMARAN	1,33,928	2.61	0.02
8	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS THROUGH MULTIPLE SCHEMES	1,30,025	2.53	0.02
9	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA THROUGH MULTIPLE SCHEMES	1,22,800	2.39	0.02
10	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS MANAGED BY ROBECO THROUGH MULTIPLE SCHEMES	1,00,076	1.95	0.02
11	INTEGRATED CORE STRATEGIES (ASIA) PTE. LTD.	72,551	1.41	0.01
12	PGGM WORLD EQUITY B. V.	70,422	1.37	0.01
13	K SPOORTHY	60,827	1.18	0.01
15	GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE	59,651	1.16	0.01
16	LONG TERM EQUITY FUND	58,372	1.14	0.01
17	AUSTRALIANSUPER	56,334	1.10	0.01

*Subject to extinguishment of 51,36,986 (Fifty One Lakh Thirty Six Thousand Nine Hundred and Eighty Six only) Equity Shares accepted in the Buyback.

3.3 The shareholding pattern of the Company, prior to the Buyback (i.e., as on the Record Date, being July 30, 2024) and post the completion of the Buyback, is as follows:

Category of Shareholder	Pre Buyback#		Post Buyback*	
	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	No. of Equity Shares post Buyback*	% of total outstanding Equity Shares
Promoter & Promoter Group and persons acting in concert (A)	30,35,15,471	51.80	30,09,48,721	51.82
Shareholding of non-promoters (B)	28,24,23,138	48.20		
Foreign Investors (OCBs/ FII/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies)	10,17,78,928	17.37	27,98,52,902	48.18
Indian Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds/ Government Companies	14,14,24,962	24.14		
Others (Individuals, Bodies Corporate, Employees, etc.)	3,92,19,248	6.69		
Total (A+B)	58,59,38,609	100.00	58,08,01,623	100.00

#As on the Record Date

*Subject to extinguishment of 51,36,986 (Fifty One Lakh Thirty Six Thousand Nine Hundred and Eighty Six) Equity Shares accepted in the Buyback.

4. MANAGER TO THE BUYBACK

AXIS CAPITAL LIMITED
 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli Mumbai - 400 025, Maharashtra, India
 Tel.: +91 22 4325 2183; Fax: +91 22 4325 3000
 Contact Person: Harish Patel/ Simran Gadh
 Email: apl.buyback@axiscap.in; Website: www.axiscapital.co.in
 SEBI Registration Number: INM000012029

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Advertisement and confirms that this Post Buyback Public Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Post Buy Back Public Advertisement is issued under the authority of the Board in terms of the resolution passed by the Board on Thursday, July 18, 2024 and by the Buyback Committee on Monday, August 19, 2024.

For and on behalf of the Board of Directors of Aurobindo Pharma Limited

Sd/- **K. Nityananda Reddy** Managing Director
 DIN: 01284195

Sd/- **Mettu Madan Mohan Reddy** Whole-time Director
 DIN: 01284266

Sd/- **B. Adi Reddy** Company Secretary and Compliance Officer
 Membership No.: ACS 13709

Date: August 20, 2024
 Place: Hyderabad

TATA POWER
 (Corporate Contracts Department)
 Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
 (Board Line: 022-47173188) CIN: L2820MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited invites Expression of Interest for Annual Maintenance Contract for Electrical System at Mundra Thermal Power station, Mundra, Gujarat

Details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc. may be downloaded from the tender section of our website URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>.

Eligible parties willing to participate in above tender may submit their Expression of Interest along with the tender fee for issue of bid document latest by **31st August 2024**.

TATA POWER
 The Tata Power Company Limited
 (Mundra Thermal Power Station - UMPP)
 Tunda Vardh Road, Tunda Village, Mundra, Kutch, Gujarat
 Reg. Office: Bombay House, 24 Homi Modi Street, Mumbai - 400 001

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest (EOI) from eligible bidders for the following requirement for 4150 MW UMPP Mundra Thermal Power Station:

- Supply and service for replacement of aluminium enclosure in panels (Ref: MTPS25V5783)
- Supply and service for relay retrofitting in MV switchgear feeders (REF: MTPS25V5788)
- AMC services for EOT, Gantry and Hoists (Ref: MTPS25AD775)

For prequalification requirements, tender fee, bid security etc., please visit Tender section of our website (URL: <https://www.tatapower.com/tenders>) and refer detailed Tender Notice for subject tender. Eligible bidders willing to participate in this tender may submit their Expression of Interest along with the Tender Fee latest by **02/09/2024**.

SRI ADHIKARI BROTHERS TELEVISION NETWORK LTD
 SRI ADHIKARI BROTHERS TELEVISION NETWORK LTD
 CIN: L32200MH1994PLC083653
 Regd. Off: 6th Floor, Adhikar Chambers, Oberoi Complex, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053
 E-mail: investorervices@adhikaribrothers.com; Website: www.adhikaribrothers.com;
 Tel: 022 - 4023 0000; Fax: 022 - 2639 5459

INFORMATION REGARDING 29th (TWENTY-NINTH) ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

The members are hereby informed that the 29th (Twenty-Ninth) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd. ("Company") will be held on **Monday, September 16, 2024 at 10:30 A.M. (IST)**, through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules framed thereunder, read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2023-24 is being sent only through electronic mode by e-mail to those Members, whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday, August 16, 2024**, and whose email addresses are registered with the Company or Link Intime (India) Private Limited, Registrar and Share Transfer Agents ("RTA") or their respective Depository Participants ("DPs").

The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be made available on the website of the Company at <http://www.adhikaribrothers.com>, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <http://www.bseindia.com> and www.nseindia.com respectively, and on the website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") at <https://www.evoting.nsdl.com>. Necessary arrangements have been made by the Company with NSDL to facilitate Remote e-voting and E-voting during the AGM.

Members can join and participate in the AGM through VCOAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the Remote e-voting or casting vote through E-voting during AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VCOAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members who have not registered their e-mail address with the Company/Depository or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, i.e. **Monday, September 09, 2024**, such members may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@nsdl.com or rt.helpdesk@linkintime.co.in. However, if a Member is already registered with NSDL for Remote e-voting and E-voting during AGM, then existing User ID and password can be used for casting vote.

Members who have not registered their email address and holding Equity Shares in Demat form are requested to register their e-mail address with the respective DPs and the Members holding Equity Shares may get their e-mail addresses registered with RTA of the Company by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at <http://www.adhikaribrothers.com/general-info>) duly filled and signed alongwith requisite documents to rt.helpdesk@linkintime.co.in.

The Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining and attending the AGM through VCOAVM, manner of casting vote through Remote e-voting and E-voting during the AGM.

For Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd.
 Sd/-
 CS Hanuman Patel
 Company Secretary & Compliance Officer
 M. No. A55616

Place: Mumbai
 Date: August 21, 2024

Electrosteel Castings Limited
 CIN: L27310OR1955PLC000310
 Registered Office: Rathod Colony, Raigangpur, Sundergarh, Odisha 770 017, India
 Tel. No.: +91 06624 220 332; Fax: +91 06624 220 332
 Website: www.electrosteel.com; E-mail ID: companysecretary@electrosteel.com

NOTICE
 (for attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to the DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund Authority

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act"), read together with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2015 and amendments thereof ("Rules"). Section 124(6) of the Act provides that all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company in the name of Investor Education and Protection Fund.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders, at their latest available addresses, who have not claimed their dividend(s) for the Financial Year 2016-17 and onwards, for taking appropriate action(s).

The Company has updated details of such shareholders along with their folio number or DP ID/Client ID and number of Equity Shares due to transfer to DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund Authority ("Authority") on its website, www.electrosteel.com. The shareholders are requested to refer to the website to verify the details of dividends not encashed and the Equity Shares liable to be transferred to the DEMAT Account of the Authority.

The concerned shareholders, holding Equity Shares in physical form and whose Equity Shares are liable to be transferred to DEMAT Account of the Authority, may note that the Company would issue new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer to the DEMAT Account of the Authority as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The concerned shareholders, holding Equity Shares in dematerialised form and whose Equity Shares are liable to be transferred to DEMAT Account of the Authority, may note that the Company would inform the depository by way of Corporate Action for transfer of shares in favour of DEMAT Account of the Authority. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of Equity Shares to DEMAT Account of the Authority.

The Shareholders may note that both the unclaimed dividends and the shares transferred to the IEPF Authority/DEMAT Account of the Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

In case the Company does not receive any valid claim from the concerned shareholder by **15 October, 2024** the Company shall with a view to comply with the aforesaid requirements set out in the Rules, transfer the shares to the DEMAT Account of the Authority.

In case the shareholders have any queries/clarifications on the subject matter and the Rules, they may contact the Company at its Registered Office or Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., the Company's Registrar and Transfer Agent, at 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata 700 001, Tel. No.: +91 33 2248 2248/2243 5029; E-mail ID: mdpdp@yahoo.com.

For Electrosteel Castings Limited
 Sd/-
 Indranil Mitra
 Company Secretary
 ICS: A20387

Place : Kolkata
 Date : 21 August, 2024

OFFER OPENING ADVERTISEMENT FOR THE BUY BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, ("SEBI BUYBACK REGULATIONS") AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF

DHANUKA AGRITECH LIMITED
 Corporate Identification Number: L24219HR1985PLC122802
 Registered Office & Correspondence Address: Global Gateway Towers, MG Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram - 122 002, Haryana, India | Tel: +91 124 434 5000 | Website: www.dhanuka.com | Email: investors@dhanuka.com
 Contact Person: Jitin Sadana, Company Secretary and Compliance Officer

BUYBACK OF UPTO 5,00,000 (FIVE LAKH) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF ₹ 2/- (RUPEES TWO) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 1.10% OF THE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2024 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON AUGUST 16, 2024 ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 2,000 (RUPEES TWO THOUSAND ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UPTO ₹ 100 CRORES (RUPEES ONE HUNDRED CRORES ONLY) ("BUYBACK SIZE").

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

- a) the public announcement in connection with the Buyback published on August 06, 2024 in the following newspapers: i) Financial Express (English - all editions) and ii) Jansatta (Hindi - all editions) ("Public Announcement");
- b) the letter of offer dated August 20, 2024 in connection with the Buyback ("Letter of Offer").

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer, Tender form (the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement) along with SH-4 Form to all the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Friday, August 16, 2024 has been completed by August 20, 2024 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Depositories / Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

The Buyback Entitlement ratio for the shareholders is as below:

Category of Shareholders	Ratio of Buyback
Reserved category for Small Shareholders	3 Equity Shares for every 28 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	5 Equity Shares for every 528 Equity Shares held on the Record Date

For details, refer to "Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category" on page 28 of the Letter of Offer.

Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back:

- (a) In case the Shares are held in Dematerialised Form: Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.23 on page 34 of the Letter of Offer.
- (b) In case the Shares are held in Physical Form: Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.24 on page 35 of the Letter of Offer.
- (c) In case of non-receipt of the Letter of Offer: The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.27 on page 39 of the Letter of Offer.

The Letter of Offer and Tender Form (the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement) is available on the website of the Company (www.dhanuka.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (www.bigshareonline.com), the Manager to the Buyback (www.sundacapital.com) and Stock Exchanges, BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, if they so desire, may download the Letter of Offer and Tender Form (the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement) from the websites indicated above.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS CAN ALSO CHECK THEIR ENTITLEMENT ON THE WEBSITE OF THE REGISTRAR TO THE BUYBACK BY FOLLOWING THE STEPS GIVEN BELOW.

- Click on <https://www.bigshareonline.com/BuyBack.aspx>
- Select the name of the Company - Dhanuka Agritech Limited.
- Select holding type - "Physical" or "NSDL" or "CDSL" or "PAN".
- Based on the option selected above, enter your "Folio Number" or "NSDL DPID/Client ID" or "CDSL Client ID" or "PAN".
- Enter the security code and click on submit.
- Click on 'View' button
- The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'

Eligible Shareholders have to ensure that their bid is entered by their respective Seller Member in the electronic platform to be made available by NSE before the Buyback Closing Date.

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Opening of the Buyback	August 22, 2024	Thursday
Date of Closing of the Buyback	August 28, 2024	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback	August 28, 2024	Wednesday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchange	September 04, 2024	Wednesday

Further, under Clause 10.15 and 10.16 of the Public Announcement, with regard to the delivery of original Equity Share certificate(s), Tender Form, Transaction Registration Slip (TRS) or any other documents, as the case may be, to the Registrar to the Buyback, shall be read as below:

"Eligible Shareholders who cannot hand deliver the Tender Form and other documents at the Office of Registrar to the Buyback, may send the same by registered post/ speed post/ courier, at their own risk, superscribing the envelope as "Dhanuka Agritech Limited - Buyback 2024-25", to the Registrar to the Buyback on or before the Buyback Closing Date."

Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tender Offer and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

For and on behalf of the Board of Directors of Dhanuka Agritech Limited

Sd/- **Mahendra Kumar Dhanuka**